

अपठित गद्यांश - 1

प्र. 1 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

अमन और रमन दो भाई थे । दोनों ने कुछ पशु - पक्षी पाल रखे थे । एक दिन दोनों भाइयों के माता - पिता किसी शादी में गए थे और वे दोनों अकेले थे । उन्होंने सभी के पशु - पक्षियों के पिंजरे खोल दिए । चिड़िया और चिड़ा बहुत चहचहाए । कबूतर और खरगोश कमरे में इधर - उधर घूमने लगे । ऐसा लगा मानों बहार आ गई हो ।



क) दोनों भाइयों के नाम लिखें ।

ख) समान लय शब्द लिखें :-

1. अमन -

2. इधर -

ग) विपरीत शब्द लिखें :-

1. बंद -

2. रात -



घ) वाक्य बनाएँ



1. चिड़िया - _____

2. घूमने - _____

अपठित गद्यांश - 2

प्र. 1 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

सोना और मोना दो बहनें थीं। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थीं। अचानक उन्हें मीं - मीं की आवाज़ सुनाई दी जो एक कुरसी के नीचे से आ रही थी। वह आवाज़ किसी जानवर की लग रही थी। दोनों कुरसी के पास गईं और धीरे से उसके नीचे झाँका। वहाँ उन्हें बिल्ली के दो बच्चे दिखे। दोनों ने एक एक बच्चा उठाया और उनके साथ खेलने लगीं।



क) सोना और मोना कहाँ खेल रही थीं ?

ख) कुरसी के नीचे कौन था ?

ग) वचन बदलें :

1. बच्चा -

2. बहन -

घ) दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें :

1. बाग -

3. पशु -

ङ) विपरीत शब्द लिखें :

1. दूर -

4. तेज़ -



धमाल

ले आओ मकड़ी से जाल
मछली पकड़ो करो धमाल
चिड़िया के पंखों को लगाकर
उड़ जाओ ऊँचे आकाश
इंद्रधनुष के रंग चुरा कर
रंग डालो सारा संसार
चंदा से जा कर कह देंगे
कभी तो आ धरती पर हमारे पास ।



इंद्रधनुष का चित्र

** दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) ऊपर दिए स्थान पर इंद्रधनुष का चित्र बनाएँ और रंग भरें ।

ख) नाम वाले शब्दों पर घेरा लगाएँ ।

ग) काम वाले शब्द चुनकर लिखें :-

--	--	--

घ) समान अर्थ वाले शब्द छाँटकर लिखें :-

1) भूमि -

2) दुनिया -

ड) मछली का चित्र बनाएँ और उस पर दो वाक्य लिखें :-

हिंदी - कार्य पत्रक (कक्षा - प्रथम)

चंद्रा मामा

चंद्रा मामा गोल मटोल
कुछ तो बोल , कुछ तो बोल
कल थे आधे , आज हो गोल ,
खोल भी दो अब अपनी पोल ।
रात होते ही तुम आ जाते ,
संग - साथ सितारे लाते ।
लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते ,
कुछ तो बोल, कुछ तो बोल ।



कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1) इस कविता में मामा किसे कहा गया है?

2) कविता में चाँद का आकार कैसा है? सही उत्तर पर घेरा लगाइए :-

क) छोटा - मोटा ख) गोल - मटोल ग) काला - सफ़ेद

3) चाँद अपने संग किसको लाया?

4) विपरीत शब्द लिखिए :-

क) रात -

ख) बंद -

5) " बोल " शब्द के दो सामान लय शब्द छाँटकर लिखिए :-

चंद्रबिंदु वाले कोई चार शब्द लिखिए :-